

## केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय, कोलकाता-27

### वार्षिक रिपोर्ट 2015-2016

#### **पुष्ठभूमि :-**

केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय, कोलकाता की कार्य की शुरुआत स्वतंत्र रूप से राष्ट्रीय पुस्तकालय के परिसर में सन 1955 से प्रारम्भ हुई । इस समय राष्ट्र का राष्ट्रीय ग्रंथीक प्रतिनिधि के रूप में कार्य का निर्वाह कर रहा है । इसे निम्नलिखित योजनाओं के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व दिया गया है ।

- संकलन, प्रकाशन और भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथसूची की रोमन लिपी की बिक्री वार्षिक खंड और मासिक दोनों रूप में ।
- भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथसूची . भारतीय प्रकाशकों का एक प्रमाणिक रिकार्ड है जिसमें अंग्रेजी सहित 14 भारतीय भाषाओं का एक अद्यतन ग्रंथ है जिसे राष्ट्रीय ग्रंथसूची पुस्तक परिदान अधिनियम 1954 के प्रावधान के अंतर्गत प्राप्त ग्रंथों से बनाया गया है ।
- संकलन और भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथसूची के भाषा ग्रंथसूची के प्रकाशन ।
- संकलन प्रकाशन तथा इंडेक्स इंडियाना का विक्रय जो 6 वृहद भाषाओं के अद्यतन भारतीय पत्रिकाओं में चयनित आलेखों का एक परिशिष्ट है, जैसे बंगला, हिंदी, मलयालम, मराठी, तमिल और तेलगु ।

#### **अनुमानित उपलब्धि और लक्ष्य 2015 -2016 के दौरान**

भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथसूची : मासिक प्रकाशन

मासिक राष्ट्रीय ग्रंथसूची . प्रकाशन की संख्या :

1. मासिक अंक जनवरी से सितम्बर, 2015 प्रकाशित ।
2. मासिक अंक नवम्बर और दिसम्बर 2015 प्रेस को भेजने के लिए तैयार ।

#### **राष्ट्रीय ग्रंथसूची . वार्षिक खंड :**

1. राष्ट्रीय ग्रंथसूची वार्षिक खंड 2013 प्रकाशित ।
2. राष्ट्रीय ग्रंथसूची. वार्षिक खंड 2014 प्रेस भेजने हेतु तैयार है ।
3. भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथसूची वार्षिक खंड 2015 प्रकाशन की अंतिम प्रक्रिया में है .

#### **इंडेक्स इंडियाना :**

इंडेक्स इंडियाना परियोजना पंचवार्षिक योजना के तहत सन 1975 में हुई . यह 6 वृहद क्षेत्रीय भाषाओं के पत्रिकाओं अर्थात बंगला, गुजराती, हिन्दी, मराठी और तमिल में प्रकाशित चुनिन्दा लेखों की सूची तैयार करने हेतु किया गया है . 1999 - 2003 पंच वार्षिक खंड बिक्री हेतु उपलब्ध है . वर्ष 2004 से इंडेक्स इंडियाना का प्रकाशन हेतु महत्वपूर्ण साफ्टवेयर की आवश्यकता है . इस दिशा में कार्यवाई जारी है .

## **भाषीय ग्रंथसूची :-**

जातीय ग्रंथपंजी बंगला 2013 और 2014 प्रकाशित हो चुका है . राष्ट्रीय ग्रंथसूची हिन्दी 2005- 2007 का प्रकाशन हो चुका है और 2010-2014 प्रकाशन हेतु इलाहाबाद प्रैस भेजा जा चुका है । 2008-2009 प्रकाशन की अंतिम प्रक्रिया मे है । राष्ट्रीय ग्रंथसूची मराठी 2013-2014 वर्तमान मे प्रैस मे है पर इसका ऑन लाइन सुविधा महाराष्ट्र सरकार के निदेशक महोदय के बेव साइट पर उपलब्ध है .

## **वेवसाईट का अपडेशन :**

सभी निविदा सुचना केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय के वेवसाईट [www.crlindia.gov.in](http://www.crlindia.gov.in) पर समय-समय पर अपलोड कर दिया जाता है । राष्ट्रीय ग्रंथसूची.(रोमन के साथ-साथ भारतीय भाषाओं) की प्रकाशनों की सूची को अपडेट कर दिया गया है । स्टाफ सूची और उनके पे-बैंड, ग्रेड पे को समय-समय पर अपडेट कर दिया जाता है । सी.पी.ई.एन.जी.आर.ए.एम पेंशनरों के शिकायत के समाधान हेतु वेवसाईट से जोड़ दिया गया है । आर.एफ.डी. को अपडेटेड कर दिया गया है । वर्तमान स्टाफ और संस्थान के विविध स्कीमों को अपडेट कर दिया गया है ।

## **5. भवन परियोजना :**

मौजूद सी.आर.एल. भवन के ठीक उपर ही एक भवन का निर्माण कार्य पुरा होने पर है ।

## **6. कार्यालय के कार्य मे हिन्दी का बढ़ावा :**

विगत कुछ वर्षों से राजभाषा कार्यान्वयन समिति हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत कार्य कर रहा है लगभग 90 % कर्मचारी हिन्दी पास कर चुके है । मार्च 14 एवं 15, 2016 को कार्यालय में हिंदी कार्यशाला का भी आयोजन किया गया था । केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय, कोलकाता के कई कर्मचारियों ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था ।

## **सेमिनार और संगोष्ठी :**

विविध व्यवसायिक संगोष्ठियों तथा बैठकों मे इस कार्यालय के अधिकारी एवं कर्मचारी नियमित रूप से भाग लेते रहे हैं। 14 सितम्बर 2015 से दिसम्बर 2015 के दौरान इस कार्यालय के 5 अधिकारियों को एन.एम.एल के ट्रेनिंग प्रोग्राम गेतुगांधीनगर , गुजरात भेजा गया था ।

## **पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए विकासमुखी योजना**

भारत सरकार के निर्णय के अनुसार, केंद्रीय संदर्भ पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए विकासमुखी योजना\_पुस्तकालय भी पूर्वोत्तर क्षेत्रों के विकास हेतु योजनाओं का शुरुआत किया है । 23 कार्यक्रम जैसे कार्यशाला, सेमिनार पूर्वोत्तर राज्यों के विविध विश्वविद्यालयों के सहयोग से उस क्षेत्र के लाइब्रेरी प्रोफेसनल को लेकर पूरा किया गया है ।

## 7. स्वच्छ भारत अभियान :

केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय, कोलकाता स्वच्छ भारत अभियान को जागरूक योजना के तौर पर मनाया और इस संदर्भ में पत्रक वितरित किया गया ।

### संपर्क विवरण

केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय, बेलवेडियर रोड, अलीपुर, कोलकाता- 700027, पश्चिम बंगाल ।

दुरभाष : (033) 2479 1721, 2448 1529

टेलीफेक्स : (033) 2448 1060

Email : [centralreferencelibrary@gmail.com](mailto:centralreferencelibrary@gmail.com)

Web : [www.crlindia.gov.in](http://www.crlindia.gov.in), [www.inbonline.nic.in](http://www.inbonline.nic.in)